



(एक महारत्न कंपनी)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

(आई.एस.ओ. 45001:2018 प्रमाणित)

(ISO 45001:2018 Certified)

No:1:05:138:I:CS

Dated : 30.06.2026

National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI – 400 051.	BSE Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू), मुंबई-400 051	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001

Sub: Transfer of Kakinada I Transmission Limited (wholly owned subsidiary of PFC Consulting Limited) (wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited).

Madam/Sir,

This is to inform that the following wholly owned subsidiary of PFC Consulting Limited (a wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited) has been transferred to **Power Grid Corporation of India Limited**, the successful bidder on 29.06.2026.

Kakinada I Transmission Limited established for the development of "Transmission system for proposed Green Hydrogen / Green Ammonia projects in Kakinada area (Phase-I)"
The details relating to said transaction are as under:-

Sl. No.	Particulars	Details
		Kakinada I Transmission Limited
1.	The amount and percentage of the turnover or revenue or income and net worth contributed by such unit or division of the listed entity during the last financial year.	Negligible
2.	Date of which the agreement for sale has been entered into.	The process for sale and transfer of the said SPV to the successful bidder is completed on 29.06.2026
3.	The expected date of completion of sale/disposal.	
4.	Consideration received from such sale/disposal.	Rs. 20,50,66,293/- (Rupees Twenty Crores Fifty Lakhs Sixty Six Thousand Two Hundred and Ninety Three Only) as per the Share Purchase Agreement.
5.	Brief details of buyer and whether the buyers belong to the promoter/ promoter group/ group companies. If yes, details thereof.	Name of the successful bidder: Power Grid Corporation of India Limited
		It is pertinent to mention that the successful Bidders mentioned above, does not belong to Promoter and Promoter group.
6.	Whether the transaction would fall within related party transactions? If yes, whether the same is done at "arm's length".	The said transaction does not fall within the purview of related party transaction.
7.	Whether the transaction is in the nature of Slump Sale.	The proposal for sale and transfer of the wholly-owned subsidiary of PFC Consulting Limited, to the successful

		<p>bidder as per details given in Point no. 5 above, is not in the nature of slump sale.</p> <p>Further, the consideration for sale & transfer of SPVs is determined in accordance with the Guidelines issued, from time to time, by the Ministry of Power, Government of India.</p>
--	--	--

यह आपकी जानकारी और प्रसार के लिए है।
This is for your kind information and dissemination.

धन्यवाद। Thanking You.

**Yours faithfully,
For Power Finance Corporation Limited**

**(Manish Kumar Agarwal)
Company Secretary & Compliance Officer
mk_agarwal@pfcindia.com**